



दिल्ली पब्लिक स्कूल, गांधीनगर

शैक्षिक सत्र 2021-22

|   |                    |
|---|--------------------|
| Activity : हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों पर कोलाज गतिविधि | Date : 14-09-2021  |
| Venue : Online  | Class : V (A to H) |

**कोलाज - गतिविधि**

**उद्देश्य - \* हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों के जीवन तथा रचना के प्रति ज्ञान प्राप्त करें।**

**\*हिन्दी भाषा के प्रति रोचकता एवं जागरूकता का विकास करना।**

**हिंदुस्तान की है शान है हिंदी  
हर हिन्दुस्तानी की पहचान हिंदी  
एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी  
हर दिल का अरमान है हिंदी**

14 सितम्बर १९४९ को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी ,इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के महत्त्व को प्रतिपादित करने हेतु तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के प्रयोजन हेतु समस्त भारत में 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधीनगर में भी हिंदी भाषा के महत्त्व को और भी उजागर करने के लिए विद्यालय के प्राथमिक विभाग में कक्षा पाँच के लिए हिन्दी के प्रसिद्ध कवि गतिविधि का आयोजन किया गया। कविता हिन्दी साहित्य की वह विधा है जो खूबसूरत विचार को कम शब्दों में कहना जानती है। जैसे कि आप सब को विदित ही होगा कि-

**जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि**

अर्थात जहाँ सूर्य भी न पहुँच सके वहाँ कवि पहुँच सकते हैं। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य के परिचय के साथ-साथ प्रसिद्ध कवियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल ,गांधीनगर का सिद्धांत है- 'स्वयं से पहले सेवा'। इसी सिद्धांत के फलस्वरूप वर्तमान काल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हिंदी दिवस कुछ नवीनता के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने इस गतिविधि में बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। प्रस्तुत गतिविधि के द्वारा विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध कवियों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उनमें हिन्दी विषय के प्रति रोचकता का विकास हो।

**मन की भाषा ,प्रेम की भाषा  
हिंदी है भारत जन की भाषा**

